


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रकाशरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 58]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 1969/चैत्र 10, 1891

[No. 58]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 1969/CHAITRA 10, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March 1969

G.S.R. 915.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941 (Bengal Act 6 of 1941) as in force in the Union territory of Delhi, the Central Government hereby makes with effect from the 1st April, 1969, the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, the same having been previously published in the Official Gazette as G.S.R. 436 dated the 12th February, 1969, as required by the said sub-section namely :—

In the said Schedule, for item 29, the following item shall be substituted, namely :—

“29 Agricultural implements, including chaff cutters and parts thereof and Persian wheels and parts thereof”

[No. F. 16/32/68-UTL.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1969

सा० का० नि० 916.—बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 (1941 का बंगाल अधिनियम सं० 6) की जैसा कि वह दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त है, धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में पहली अप्रैल, 1969 से एतद् द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन, जो उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार सा० का० नि० सं० 436, तारीख 12 फरवरी, 1969 के रूप में शासकीय राजपत्र में पहले प्रकाशित किया जा चुका है, करती है, अर्थात्—

उक्त अनुसूची में मद सं० 29 के लिए निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“29 कृषि उपकरण, जिनके अन्तर्गत चारा काटने की मशीनें और उसके भाग तथा रकट और उसके भाग हैं।”

[सं फा० 16/32/68—यू० टी० एल०]

के० भार० प्रभु, संयुक्त सचिव।